

प्रैस रिपोर्ट

स्वच्छता पखवाड़ा साइकिल रैली

एन सी सी शिमला ग्रुप

20 सितम्बर , 2019

आज दिनांक 20 सितम्बर , 2019 को NCC Group HQ Shimla द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय , हिमाचल प्रदेश ने रिज मैदान शिमला से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में NCC Group HQ Shimla के कुल 30 SD Cadets ने भाग लिया और DG NCC द्वारा आयोजित पैन इंडिया रैली का बने, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों Cadets एक साथ साइकिल चला रहे हैं और जिसका समपत्र 27 सितम्बर , 2019 को नई दिल्ली में होने जा रहा है। रैली का उद्देश्य आम जनता को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है और इसके महत्व को समझाना है।

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों से NCC SD Cadets चुने गए हैं जो की प्रदेश के विभिन्न चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करते हुए सोलन से होकर चण्डीगढ़ पहुंचेंगे। पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ NCC निदेशालय के दिशानिर्देशानुसार रैली नई दिल्ली के लिए रवाना होगी और शिमला से दिल्ली तक चण्डीगढ़ के रास्ते लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 27 सितंबर, 2019 को इंडिया गेट पर समाप्त हो जाएगी।

महामहिम राज्यपाल ने NCC Group HQ और Cadets को इस आयोजन के लिये शुभकामनाएं दीं और स्वच्छता के संदेश को देश के कोने कोने तक विशेषकर ग्रामिण इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। Cadets ने एक एकांकी के द्वारा इस रैली के उद्देश्य को उजागर किया। ग्रूप कमाण्डर, ब्रिगेडियर राजीव ठाकूर SM VSM NCC Group HQ शिमला ने रैली के सार संक्षेप को प्रस्तुत किया।

इस समारोह में माननीय शिक्षा मन्त्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में, शिमला के महापौर और उपमहापौर, NCC Group HQ और 7 HP (I) COY NCC Shimla के अधिकारी और कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और प्रिंसीपल, शिमला के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से NCC अधिकारी और Cadets शामिल रहे।